



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2007/पौष 3, 1929

No. 1580]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2007/PAUSA 3, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2007

सं. 64 (आर ई-2007)/2004—2009

का.आ. 2172(अ).—यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (आरई-2006) और विदेश व्यापार नीति (आरई-2007) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (आर ई-2006 और आर ई-2007) के पैरा 3.10.2 में 'सभी देशों को' शब्दों के बाद "(एस ई जैड ईकाइयों सहित)" शब्दों को जोड़ा गया है।
- विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 (19-4-2007 तक अद्यतन) के पैरा 3.10.2.2 (ख) में "अथवा ऐसी ईकाइयों को की गई आपूर्ति" शब्दों को हटा दिया गया है।

यह 1-4-2006 से लागू होगी।

फलस्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि डीटीए से एसईजैड ईकाइयों को माल की आपूर्ति करने वाली डीटीए ईकाइयाँ, वास्तविक निर्यात होने पर 1-4-2006 से निर्यातों हेतु फोकस उत्पाद स्कीम के तहत लाभों की पात्र हैं बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति के लिए आवेदक ने डीटीए ईकाइयों से मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया हो।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/360/ए एम 06/पी सी-1]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2007

No. 64(RE-2007)/2004—2009

S.O. 2172(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2004—2009, as amended, the Central Government hereby makes the following amendments in FTP, 2004—2009 (RE-2006) & FTP (RE-2007).

- The words '(including SEZ units)' is added in the Para 3.10.2 of FTP, 2004—2009 (RE-2006 & RE-2007) after the words 'to all countries'.
- The words 'or supplies made to such units' in the Para 3.10.2.2 (b) of FTP, 2004—2009 (Updated as on 19-4-2007) is deleted.

This shall take effect from 1-4-2006.

Consequently it is clarified that DTA units supplying goods from DTA to SEZ units, being physical exports, are eligible for benefits under Focus Product Scheme for exports w.e.f. 1-4-2006 provided payment for such supplies is received in free foreign exchange by applicant DTA units.

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/360/AM 06/PC-1]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and ex officio Addl. Secy.